



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022025-260887
CG-DL-E-11022025-260887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2025/माघ 21, 1946
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2025/MAGHA 21, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

संदर्भ :HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1155)— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 6053 (भाग 5) : 2025 फुटबियर उद्योग के लिए हाथ के उपकरण — विशिष्ट भाग 5 सीधा हैकिंग चाकू (पहला पुनरीक्षण)	29 जनवरी 2025	आई एस 6053 (भाग V) – 1972 फुटबियर उद्योग के लिए हाथ के उपकरण के लिए विशिष्ट भाग V सीधा हैकिंग चाकू	29 जुलाई 2025

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	आई एस 18917 : 2025 आई एस ओ 21987 : 2017 नेत्र संबंधी प्रकाशिकी — माउंटेड चश्मे के लेंस	29 जनवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आई एस 18950 : 2025 आई एस ओ 17853 : 2011 प्रत्यारोपण सामग्री का घिसाव — पॉलिमर और धातु के घिसाव के कण — अलगाव और लक्षण वर्णन	29 जनवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आई एस 18984 : 2025 आई एस ओ/टी एस 20721 : 2020 सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण — अवशोषित करने योग्य धातु प्रत्यारोपण के मूल्यांकन के लिए सामान्य दिशानिर्देश और अपेक्षाएँ	29 जनवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आई एस 18985 : 2025 आई एस ओ 22926 : 2023 सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण — परीक्षण के लिए कृत्रिम संरचनात्मक हड्डी मॉडल की विशिष्टि और सत्यापन	29 जनवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं
6	आई एस 18986 : 2025 आई एस ओ 16087 : 2013 सर्जरी के लिए प्रत्यारोपण — आर्थोपैडिक प्रत्यारोपण के प्रवासन के आंकलन के लिए रोएंटेजन स्टीरियो फोटोग्रामेट्रिक विश्लेषण	29 जनवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं

चित्रा गुप्ता वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)
[विज्ञापन-III/4/असा./956/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2025

Ref :HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1155).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 6053 (Part 5) : 2025 Hand Tools for Footwear Industry — Specification Part 5 Straight Hacking Knife (First Revision)	29 January 2025	IS 6053 (Part V) – 1972 Specification for Hand Tools for Footwear Industry Part V Straight Hacking Knife	29 July 2025
2	IS 18917 : 2025 ISO 21987 : 2017 Ophthalmic Optics — Mounted Spectacle Lenses	29 January 2025	NA	NA
3	IS 18950 : 2025 ISO 17853 : 2011 Wear of Implant Materials — Polymer and Metal Wear Particles — Isolation and Characterization	29 January 2025	NA	NA
4	IS 18984 : 2025 ISO/TS 20721 : 2020 Implants for Surgery — General Guidelines and Requirements for Assessment of Absorbable Metallic Implants	29 January 2025	NA	NA
5	IS 18985 : 2025 ISO 22926 : 2023 Implants for Surgery — Specification and Verification of Synthetic Anatomical Bone Models for Testing	29 January 2025	NA	NA
6	IS 18986 : 2025 ISO 16087 : 2013 Implants for Surgery — Roentgen Stereo Photogrammetric Analysis for the Assessment of Migration of Orthopaedic Implants	29 January 2025	NA	NA

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./956/2024-25]